

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार...

1	1	<u>युद्ध : शांति की स्थापना या महाविनाश</u>
		अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन अपनी कविता 'द चार्ज ऑफ द बार्ड ब्रिगेड' में एक युद्ध का व्याख्यान <u>व्याख्यान</u> करते हैं।
		यह कविता बताती है कि एक 600 सैनिकों की टुकड़ी कैसे अपने कमांडर के के <u>मुख्यपूर्ण</u> आदेश के कारण मृत्यु के गाल में समा जाती है। युद्ध का यह दृश्य है 1854-1856 में इस <u>इस</u> रूस और तुर्की के बीच हुए 'क्रीमिया के युद्ध' का। 'क्रीमिया का युद्ध' इतिहास में एक बहुत ही <u>मुख्यपूर्ण</u> एवं <u>अनिवार्य</u> युद्ध माना जाता है।
		अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी युद्ध सर्वदा <u>मुख्यपूर्ण</u> <u>वैश्वसिक</u> ही होते हैं या इनसे शांति की स्थापना भी की जा सकती है ?
		युद्ध, जिसका नाम <u>रुनते</u> ही आँखों के सामने अथवा <u>दृश्य</u> आने लगते हैं। आक्रामक सैनिक, आक्रामक हथियार, युद्ध भूमि, तहस-नाहस, और शक्त सिंघित भूमि। युद्ध हमेशा ही उत्तरदायी होते हैं सामूहिक विनाश के। एक ही बार में एक साथ अनेक लोग भी जने चली जाती हैं, आर्थिक हानि भी होती है सो अलग। तो क्या ये युद्ध हमेशा से ही मानव जाति और मानव इतिहास का हिस्सा रहे हैं ?



प्रश्न
 संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
 (Mains Answer Sheet)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इस्सार्सी - अमेरिकी लेखक 'युवल नोवाट ह्यारी' अपनी किताब 'होमो - डेयस - द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हुमारी' में बताते हैं किसे 'सुह्य' मानव जीवन का आग बना। इस किताब के अनुसार मानव जीवन अलग-अलग काल से गुजरा और उस काल की आवश्यकताओं के अनुरूप उसके जीवन में परिवर्तन आये।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'ह्यारी' ने इसे क्रमशः स्थानात्मक क्रांति, कृषि क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति में विभाजित किया है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	स्थानात्मक क्रांति का आरंभ आठ से 70,000 वर्ष पूर्व हुआ जब मनुष्य ने अपने मस्तिष्क का उपयोग करना शुरू किया।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	उसने अपने शिकारी-संग्राहक जीवनशैली में सुधार कर पशुओं को पालना और कृषि करना शुरू किया। यहाँ से कृषि क्रांति की शुरुआत हुई।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	जो कि आज से करीब 12,000 वर्ष पूर्व का समय था। तत्पश्चात् वैज्ञानिक क्रांति आरम्भ में आयी जिसने अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों को जन्म दिया जो आज से 500 वर्ष पूर्व शुरू हुई।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इसी वैज्ञानिक क्रांति ने जन्म दिया 'औद्योगिक क्रांति' को।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17वीं सदी के मध्य के आसपास से मशीनों का उत्पादन में अत्यधिक उपयोग होने लगा जिससे उत्पादन तेज बढ़ा साथ ही अन्य कई चीजें भी। उदाहरण स्वरूप

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	यूजीवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	उपभोक्तावाद। जिसने जन्म दिया मौलिक,
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	राजनीतिक और नस्लीय त्वराव को,
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	जो आगे जाकर अलग-अलग युद्धों का
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	कारण बना।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	बढ़ते साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ने विकसित या कुलनात्मक रूप से विकसित देशों
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	को उत्साहित किया होते देशों पर अपना
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	साम्राज्य स्थापित करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	का भारत पर को अपना उपनिवेश बनाया इसी
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	का ही एक उदाहरण है। एक समय ऐसा आया
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	जब पूरा विश्व ही कुछ मुहूर्त पर कुलनात्मक
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	रूप से विकसित देशों का उपनिवेश था। इसने
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	न सिर्फ देशों के अंदर युद्धों को अंजाम दिया
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	बल्कि अलग-अलग देशों के बीच युद्ध करने से
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	प्लासी, बक्सर, आंग्ल-मराठा, आंग्ल-मैसूर इत्यादि
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इसीका उदाहरण है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1789 के फ्रांसीसी पुनर्जागरण के बाद शुरू
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	हुए नेपोलियन के युद्धों ने युद्धों का स्वरूप
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	बदल दिया। जहाँ पहले कुछ सैनिकों की होती
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	हुकड़ियों के साथ युद्ध लगे जाते थे अब हजारों
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	की लंबा में सैनिक युद्धभूमि पर आते बगे और
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	सैनिक परिणामस्वरूप हजारों मौतों की
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	हुई।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	नेपोलियन, बिल्मार्क, समुद्रमुद्र,
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अशोक इत्यादि जाते जाते हैं साम्राज्य का

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	शुद्धीकरण करने के लिए पर इ किस मूल्य
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	पर ? पूरी धरती को लाल रंग से रंगने के मूल्य
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	पर ?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>क्या युद्ध हमेशा विनाशकारी ही होते हैं ?</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	नोबेल पुरस्कार विजेता 'अमर्त्य
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	सेन' अपनी किताब 'आइडेंटिटी ऑफ वॉयलेंस'
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	के माध्यम से इस बात पर प्रकाश जलने का
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	प्रयास करते हैं। इस किताब के अनुसार,
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	युद्ध और उसकी विध्वंसकता काफी हद तक
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	निर्भर करती है 'आइडेंटिटी ऑफ वॉयलेंस' पर
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अर्थात् 'पहचान और उससे होने वाली हिंसा'
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	पर। यह इस पर निर्भर करता है कि मनुष्य
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अपनी 'पहचान' के स्त्रोत का निर्धारण कैसे
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	करते हैं। क्या इस पहचान स्त्रोत में खुद हैं
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	या फिर ये निर्भर हैं अन्य बाह्य स्त्रोतों
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	पर। उदाहरण स्वरूप - धर्म, जाति, वर्ण,
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	लिंग, भाषा, साहित्य, संगीत,
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	मौलिक सिद्धांत, राजनीतिक विचारधारा,
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	राष्ट्रियता इत्यादि।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ये बाह्य स्त्रोत यदि किसी
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	व्यक्ति या समूह विशेष की पहचान का
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	मूल बिंदु हैं तो ये बाकी सारी मौलिक
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	संभावनाओं को पीछे छोड़कर 'कट्टरवाद'
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	में परिवर्तित होने लगती हैं।

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

प्रश्न संख्या

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	यही कट्टरवाद जन्म देता है धार्मिक और
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	जातीय असहनशीलता को। यह असहनशीलता
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	नफरत में बदल जाती है और फिर धृणा
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	का रूप ले लेती है। धृणा यदि लंबे समय तक
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	मनुष्य के मन हृदय में होती है तो यह
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अलग-अलग 'त्करावों' के रूप में सामने
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	आने लगती है। जैसे राजनीतिक विचारधाराओं
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	का त्कराव, सांस्कृतिक और धार्मिक त्कराव,
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	भाषायी और क्षेत्रीय त्कराव, लैंगिक त्कराव
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इत्यादि। और यही त्कराव छोटे दंगों का
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	रूप ले लेते हैं जो ही आगे जाकर स्व
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	धृणा को और मजबूत करते हैं। और यही
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	आगे जाकर अलग-अलग युद्धों का कारण
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	बनते हैं।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	दुर्योधन की पांडवों के लिए
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	नफरत और धृणा, महाभारत के युद्ध में
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	परिवर्तित हो गयी। हिटलर की युद्धियों
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	के लिए धृणा ने युद्धियों के नरसंहार में
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	परिवर्तित कर दिया।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इस इंडिया कंपनी के भारत
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	आने का कारण सिर्फ व्यापार करना या
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना ही नहीं था,
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	वरन् 'इस्लाम' के बढ़ते प्रभाव को भी
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	रोकना था। इसी धर्म का प्रचार करना
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	भी इसका एक उद्देश्य था जो कि धार्मिक-

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	कट्टेश्वादी, असह्यलता और धार्मिक और व नस्लीय टकराव को ही दर्शाता है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	और यही नस्लीय वरिष्ठता भागे जाकर 20वीं सदी के सबसे विध्वंसकारी दो युद्धों का भी कारण बनी।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	विश्व युद्ध-1 और विश्वयुद्ध-2 दोनों ने मानवजाति को के अस्तित्व को सकसोर दिया। जहाँ विश्व-युद्ध-1 में जगजग पूरा विश्व ही शामिल हो गया और जन-धन की अपार क्षति हुई वहीं विश्व-युद्ध-2 ने सामूहिक विनाश के हथियारों का आगाज कर दिया।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	विश्व-युद्ध-2 के आखिर में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया गया शह परमाणु का पहला ही प्रयोग था जिससे मानवजाति को परमाणु शक्ति के विनाशकारी परिणामों से अवगत कर दिया। साथ ही साथ यह भी वेदेश दिया के युद्ध जितने विध्वंसक हो सकते हैं।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	उसके बाद दोर शुरु हुआ 'शान्ति युद्ध' का। जहाँ अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में प्रभुत्व की पताका लहरा रहा था, वहीं रूस 'साम्यवाद' का प्रसार-प्रसार कर रहा था

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार--

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	और इसी विचारधारा से उत्पन्न एकराव ने
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	जन्म दिया शीत युद्ध को। द्वितीय विश्व
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	युद्ध के बाद अब अमेरिका और रूस
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	दोनों ने ही परमाणु हथियार विकसित
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	कर लिए थे। और इस शीत युद्ध ने
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	विश्व के अन्य देशों के मन में भ्रम फैला
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	दिया अगले परमाणु युद्ध का। परन्तु
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20वीं सदी के अंत तक यह शीत युद्ध
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	समाप्त हो गया, पर तब तक अन्य कई
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	देश भी परमाणु हथियार विकसित कर
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	चुके थे।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>'सेमुअल पी. हर्दिंगटन'</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>शु (श्री 70 में युद्ध का परिदृश्य) -</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>'सेमुअल पी. हर्दिंगटन'</u> अपनी
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	किताब <u>'द वैल्यू ऑफ सिविल इंजिनेरिंग्स'</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	में <u>श्री 70 युद्ध के बाद होने वाले युद्ध</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>की संभावनाओं के बारे में लिखते हैं।</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इस किताब के अनुसार, अब युद्ध केवल
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	धार्मिक, जातीय, मल्लिय आधार पर नहीं होंगे
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	और ना ही ये केवल दो वास्तविक देशों
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	या देशों के समूहों के बीच होंगे, <u>बि</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>वर्तन सभ्यताओं के बीच होंगे।</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	शीत युद्ध के समाप्त हो
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	जाने के बाद जब बहुत सारे देशों के
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	बाल अपने विभिन्न विकसित किये इच्छे

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का पथ है द्वारा-

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	परमाणु हथियार हैं, तो अब युद्ध और जी निर्दयी तथा और जी विनाशकारी होंगे।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	परमाणु हथियारों की विनाश- शक्ति विश्व द्वितीय विश्व युद्ध में अनुभव कर चुका है। अब <u>शैक्षणिक</u> और <u>जैविक</u> हथियारों का युग है। जिनकी विनाशशक्ति का मानवजाति ने अनुभव तो नहीं किया पर कड़की कल्पना अवश्य की जा सकती है। आगामी युद्ध और अधिक निर्दयी, अथाह आक्रामक, और विनाशकारी सिद्ध होंगे।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>युद्ध और शांति की स्थापना</u> ←
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	मानव सभ्यता के इतिहास में मानवजाति ने असंख्य युद्ध देखे और उनकी क्षय हुई क्षति भी देखी। परन्तु क्या युद्ध हमेशा हानि ही करते हैं?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'श्रीमद् भगवद् गीता' में श्रीकृष्ण कहते हैं, "जब-जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब- तब धर्म की रक्षा, प्राणियों के उद्धार, और अधर्म का विनाश करने के लिए, मैं (श्रीकृष्ण) पुणों-युगों तरु प्रकार होता हूँगा।"

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का पथ है द्वारा-

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	भीम श्रौत, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अर्जुन को बताते हैं कि कैसे आवश्यकता
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	पड़ने पर युद्ध करना पड़ता है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	कुरुक्षेत्र का युद्ध जो कि कौरवों और
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	पांडवों के मध्य लड़ा गया, इसमें पांडवों
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	की कौरवों के विरुद्ध विजय 'धर्म की
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अधर्म पर' अर्थात् 'अधर्म की बुराई
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	पर' विजय बतायी जाती है। अर्थात्
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अधर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ता है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>कलिंग</u> का <u>युद्ध</u> भी युद्ध
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	को एक अलग पहलू दिखाता है। कलिंग युद्ध
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	में दुःख स्वतंत्रता ने <u>सम्राट अशोक</u> का
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	का हृदय परिवर्तन कर दिया। फलस्वरूप
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	वे <u>बौद्ध धर्म</u> के अनुयायी बन गये।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	और उसका प्रसार-प्रसार भी किया।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अशोक ने अपनी आक्रामक युद्ध नीति
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	का त्याग कर शांति पूर्ण राज्य नीति अपनाई।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	आधुनिक इतिहास में, 1971 के
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	आ भारत-पाकिस्तान युद्ध के फलस्वरूप ही
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	एक नये देश को स्वतंत्रता मिली और
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इस तरह 'बांग्लादेश' एक राष्ट्र के रूप
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	में अस्तित्व में आया।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	शीत युद्ध की समाप्ति के अंत तक सोवियत संघ टूटकर अलग-अलग नये देशों में बंट। इस तरह कई नये राष्ट्रों का निर्माण हुआ जो पूर्णतः स्वतंत्र और संप्रभुत्व थे।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इस प्रकार देखा जाए तो युद्ध के विनाशकारी पहलू के अलावा एक दूसरा भी पहलू है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि युद्ध ने कई बार शांति स्थापना भी की है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति व्यवस्था पूरे विश्व में बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना इस बात की पुष्टि करती है
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	रूसी लेखक 'लियो टॉलस्टॉय' अपनी किताब 'वॉर एंड पीस' में युद्ध और इसके प्रभावों की बात करते हैं। टॉलस्टॉय बताते हैं कि 1812 में जब नेपोलियन की सेना रूस पर आक्रमण करती है तो कैसे इस युद्ध ने लोगों के पारिवारिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया। अंत में लेखक बताते हैं कि कैसे 'पीस' अर्थात् 'शांति', 'युद्ध' के ज्यादा महत्वपूर्ण है।

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	भारतवर्ष सदियों से शान्ति का
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	प्रचार - प्रचार करता आया है। ^{वर्तमान} हमारे
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	विदेश नीति भी शान्तिपूर्ण संबन्धों पर
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	आधारित है। भारतीय कानून का मूल लोत,
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	भारतीय संविधान भी विश्व शान्ति एवं
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	मित्रता की बात करता है। अनुच्छेद 51,
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	विश्व शान्ति बनाए रखने उसके प्रचार,
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और परस्पर मध्यस्थता
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	सुलझाने की बात कही गयी है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>गौतम बुद्ध</u> ने भी परस्पर
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	प्रेम और <u>अहिंसा</u> की बात की है जो
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	हमारी विदेश नीति का आधार है। यदि
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	सभी देश अपने आपसी मतभेदों और
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	स्वार्थों को भूला दें तो <u>वसुधैव कुटुम्बकम्</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	जैसी स्थितियों को रोका जा सकता है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	और ' <u>वसुधैव कुटुम्बकम्</u> ' को भी परिहार्य
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	किया जा सकता है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2	3	<u>परिवर्तन ही प्रकृति का नियम।</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	यूनानी भूगोलवेत्ता 'हेराक्लिटस'
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ने ब्रह्मांड का अध्ययन किया। हेराक्लिटस
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	से पाया कि जबसे पृथ्वी कास्तव में उत्पत्ती
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	है तबसे निरंतर परिवर्तन ही हो रही है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	और तब उसने यह कथन दिया, "संसार
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	में एक ही चीज स्थायी है, वह है परिवर्तन
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	और यही प्रकृति का नियम है।"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	पृथ्वी की मात्र 4.5 बिलियन
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	वर्ष मानी जाती है। अपनी उत्पत्ति से
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	लेकर अब तक पृथ्वी के आंतरिक तथा
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	बाह्य स्वरूप में निरंतर परिवर्तन ही
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	हो रहे हैं। इन्हीं आंतरिक और बाह्य
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	परिवर्तनों के कारण ज्वालामुखी, पर्वत,
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	नदियाँ, झरो, पठार, मैदान आदि
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	थलाकृतियों का निर्माण हुआ।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इन्हीं पर्वतों के कारण से
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	फिर मैदान बन गये जो फिर कृषि
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	के लिए उपयोग में लाये जाते लगे। नदियाँ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	हमारी जीवनदायिनी बनी। और और फिर
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इन्हीं नदियों ने दूसरी स्थलाकृतियों का निर्माण
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	किया। इस तरह निरंतर परिवर्तन होता
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	गया।

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार -

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	सारी स्थलाकृतियाँ अपना रूप परिवर्तित करती रही। बस एक ही चीज स्थायी बनी रही, वह 'परिवर्तन'।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>परिवर्तन - एक चक्र</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	पृथ्वी लाखों जीवों का घर है। यहाँ हर एक का जीवन किसी ना किसी प्राकृतिक चक्र का ही परिणाम है। और यह चक्र सदैव चरि. होते रहे वामि परिवर्तन का परिणाम है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन त्यागते हैं। यही ऑक्सीजन मनुष्य और अन्य पशु - पक्षी ग्रहण करते हैं और कार्बन डाय ऑक्साइड त्यागते हैं। यह कार्बन डाय ऑक्साइड पुनः पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाती है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इसी प्रकार अन्य चक्र जैसे जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र वत्यादि कार्य करते हैं।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इस सारी प्रक्रियाएँ निरंतर होती रहती हैं एक चक्र के रूप में जो कि परिवर्तन का ही परिणाम है।



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इसी प्रकार भी मनुष्य जीवन
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	भी एक चक्र की जाँति कर रहा है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	पहले बाल्यावस्था, फिर युवावस्था और
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	फिर वृद्धावस्था। इसके बाद मृत्यु के
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	पश्चात् मनुष्य का शरीर वापस
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	मिट्टी का हिस्सा बन जाता है और
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	यही मिट्टी पेड़-पौधे उगते हैं।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	यही पेड़-पौधे मनुष्य के भोजन के
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	रूप में ग्रहण किये जाते हैं और यह
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	चक्र चलता रहता है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>वर्ष</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>परिवर्तन और मानव विकास</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	मानव सभ्यता का विकास भी
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	परिवर्तन का कारण है। मनुष्य पहले
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	जंगलों में पशु-पक्षियों के साथ रहा करता
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	था। फिर उसने कृषि करना शुरू
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	किया और फिर समूहों में रहने लगा।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इससे गाँवों का विकास। इसी प्रकार
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	फिर शहरों और देशों का विकास
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	हुआ।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'शुवल नोवाह ह्यारी' अपनी
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	किताब 'होमो सेपियस - ए ब्रीफ हिस्ट्री
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ऑफ ह्यूमनकीड' में बताते हैं कि कैसे

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	मनुष्य अपनी संज्ञात्मक क्षमता का उपयोग करते हुए बाकी प्रजातियों से आगे निकल गया।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	फिर 17वीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने मानव विकास की गति को और बढ़ा दिया। अब वह कार्य जो पहले मनुष्यों द्वारा किया जाता था मशीनों द्वारा किया जाने लगा। उत्पादन क्षमता के बढ़ने के साथ-साथ मनुष्य के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>परिवर्तन और टेक्नोलॉजी</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19वीं और 20वीं सदी में अभूतपूर्व तकनीकी विकास हुआ। इसने मानव की कार्य करने की क्षमता और कार्य प्रणाली दोनों को ही परिवर्तित कर दिया।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	स्टीम इंजन का आविष्कार, रेलवे लाइंस, टेलीफोन, हवाई जहाज आदि के आविष्कार ने क्रांति ला दी। उसके बाद कंप्यूटर के आविष्कार ने अकल्पनीय चीजों को वास्तविकता में परिवर्तित कर दिया।

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार...

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	शरीर लचीले तकनीकी क्षेत्र में दुरु परिवर्तन और अधिक क्रान्तिकारी सिद्ध दुरु। अब रेबोबिबल एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से सारी तरह सहाय्य चीजें साध्य हो गयी हैं। इससे शिक्षा, निष्किल्सा, परिवहन, रक्षा एवं अंतरिक्ष क्षेत्र आदि क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अब जीनोम इंजिनियरिंग और डी.एन.ए. एडिटिंग के जरिये सैमिन्स पद्धति और भी अधिक प्रभावी होगयी है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ये सारे तकनीकी आविष्कार एक ही चीज का परिणाम हैं, जो है निरंतर अन्वेषण करने की इच्छा और निरंतर परिवर्तनशील रहने की मेहरा।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	परिवर्तन और नागरिक अधिकार
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	सदैव अन्वेषण प्राप्त करने की इच्छा ने ही मनुष्य को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाया। इसी इच्छा ने

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार-

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	उसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	से समृद्ध बनने के लिए प्रेरित किया।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अलग-अलग संस्कृति और लक्ष्यताओं
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	के परिणामस्वरूप अलग-अलग देश
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	बने। और उनके नागरिकों के
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	आधिकारों का उद्भव हुआ।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इसी आधिकारों को प्राप्त
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	करने के लिए उनके संघर्ष हुए जैसे
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अमेरिकी सिविल राइट्स मूवमेंट (1950s-60s)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	जहाँ <u>मार्टिन लूथर किंग</u> ने नेतृत्व किया।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	नस्लीय हिंसा के खिलाफ साउथ अफ्रीका
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	के <u>दुराश्वेयी अपार्टाइट</u> मूवमेंट <u>जिबेन्ग्वेलसन</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>मंडेला</u> ने नेतृत्व किया। इसी प्रकार
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	महिलाओं के <u>वोटिंग सार्वभौमिक</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>मतदान अधिकार</u> के मूवमेंट और
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	भारत में <u>गोधीजी</u> के नेतृत्व में
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	हूए अलग-अलग आंदोलन जैसे
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>हरिन आंदोलन</u> , <u>असहयोग आंदोलन</u> ,
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इत्यादि।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	सामाजिक और राजनीतिक
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	येता के आने से लोगों ने अपने
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	आधिकारों के लिए मांग उठायी व
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	उन्हें प्राप्त भी किया। जो भी एक
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	परिवर्तन ही है।

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का पथ है।

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इंदौर स्वच्छता पर प्रतिवेदन
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इंदौर स्वच्छता पर प्रतिवेदन
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	दिनांक - / /
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इंदौर शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण में पाँचवीं
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	बार प्रथम स्थान हासिल किया था कीर्तिमान स्थापित
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	किया है यह इंदौर नगरपालिका एवं इंदौर
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	शहरवासियों के लिए काफी हर्ष की बात है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	यह सफलता इंदौर नगरपालिका एवं शहरवासियों
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	के निरंतर एवं अथक प्रयासों का ही परिणाम है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इंदौर पहले अन्य शहरों की तरह ही बन गया
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	यहाँ वहाँ कचरे के ढेर दिखना एक सामान्य
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	बात थी। परन्तु शहर के प्रशासन ने रस
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	वक्तव्य को स्मृति करके की प्रतिक्रिया ली उभर
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	भूट गया शहर की सफाई में।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इंदौर प्रशासन ने डोर-टू-डोर कचरा
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	संग्रहण की शुरुआत की। फिर गीला डोर
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	सूखा कचरा अलग-अलग करके संग्रहित
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	किया जाने लगा। इसमें शहरवासियों ने
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	भी पूरा सहयोग दिया।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इंदौर प्रशासन के सफाई कर्मियों या
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	सफाई-मित्रों ने इसमें लगी ही प्रसन्नगी

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	भूमिका निभायी। इन्होंने अलग-अलग दिन
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	दो रत की शिफ्टों में हर दिन काम
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	किया और इंदौर को लगातार पाँचवी बार
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने में अपनी
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	भूमिका निभायी।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इंदौर ने न सिर्फ कपड़ा संग्रहण में
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	बल्कि उसके मिश्रण की भी छरी
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	व्यवस्था की। यहाँ कपड़े को रिसायकल
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	करने के लिए शहर के बाहर प्लांट
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	बनाये गये जहाँ हर रोज कई टन कपड़ा
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	रिसायकल किया जाता है। जो अप केपोस्टर
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	आप बनाने में उपयोग किया जाता है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इंदौर की स्वच्छता की सफलता में
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इसके रहवासी, सफाईकर्मी और इंदौर
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	प्रशासन की भूमिका प्रशंसनीय रही।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इंदौर प्रशासन
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	दिनांक - / /
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)



भारत का नं. 1 संस्वान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	जिलाधीश कार्यालय, उज्जैन
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	पत्रांक -
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	दिनांक -
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	कार्यालय आदेश
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	सामान्य जनो को सूचित किया जाता है कि
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	आगामी कुछ ही दिनों में होली का त्योहार है।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	पिछले वर्ष कुछ दुकानों में होली के रंगों में
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	हानिकारक तत्वों की मिलावट पायी गयी थी।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	इस बात को ध्यान में रखते हुए यह आदेश
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	निर्गत किया जाता है कि यदि होली के
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	रंगों की दुकानों पर हानिकारक रंग उत्पाद
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	पाये गये तो खेले विक्रेताओं पर दंडात्मक
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	कार्यवाही की जायेगी। हानिकारक रंगों का
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	विक्रय अपराध है और सर्व भारतीय
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	कानून के अंतर्गत दण्डनीय है। जो भी
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	विक्रेता खेले उत्पादों की बिक्री में लिप्त पाया
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	गया उस पर भारतीय कानून (सेक्टो 2860
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	के अनुरूप दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	हस्ताक्षर _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(शिव स)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	जिलाधीश, उज्जैन